



Anita (sonia)

27 May 1984

05:30 AM

Delhi

Model: Web-MyKundli

Order No: 121143701

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा

9312257830

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 27/05/1984
दिन _____: रविवार
जन्म समय _____: 05:30:00 घंटे
इष्ट _____: 00:12:16 घटी
स्थान _____: Delhi
देश _____: India

अक्षांश _____: 28:39:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:13:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:08 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 05:08:52 घंटे
वेलान्तर _____: 00:02:54 घंटे
साम्पातिक काल _____: 21:27:48 घंटे
सूर्योदय _____: 05:25:05 घंटे
सूर्यास्त _____: 19:11:46 घंटे
दिनमान _____: 13:46:40 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: ग्रीष्म
सूर्य के अंश _____: 12:15:09 वृष
लग्न के अंश _____: 12:30:48 वृष

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: वृष - शुक्र
राशि-स्वामी _____: मीन - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: रेवती - 4
नक्षत्र स्वामी _____: बुध
योग _____: सौभाग्य
करण _____: कौलव
गण _____: देव
योनि _____: गज
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: जलचर
वर्ग _____: सिंह
युँजा _____: पूर्व
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: ची-चित्रलता
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मिथुन

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1906	ज्येष्ठ	6
पंजाबी	संवत : 2041	ज्येष्ठ	14
बंगाली	सन् : 1391	ज्येष्ठ	13
तमिल	संवत : 2041	वैकासी	14
केरल	कोल्लम : 1159	इदवम	14
नेपाली	संवत : 2041	ज्येष्ठ	14
चैत्रादि	संवत : 2041	ज्येष्ठ	कृष्ण 12
कार्तिकादि	संवत : 2041	वैशाख	कृष्ण 12

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 12
तिथि समाप्ति काल _____ : 20:41:20
जन्म तिथि _____ : 12
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : रेवती
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 07:15:26 घंटे
जन्म योग _____ : रेवती
सूर्योदय कालीन योग _____ : सौभाग्य
योग समाप्ति काल _____ : 27:12:22 घंटे
जन्म योग _____ : सौभाग्य
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 07:56:46 घंटे
जन्म करण _____ : कौलव
भयात _____ : 61:42:22
भभोग _____ : 66:05:56
भोग्य दशा काल _____ : बुध 1 वर्ष 1 मा 20 दि

घात चक्र


मास _____ : फाल्गुन
तिथि _____ : 5-10-15
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : आश्लेषा
योग _____ : वज्र
करण _____ : चतुष्पाद
प्रहर _____ : 4
वर्ग _____ : मृग
लग्न _____ : सिंह
सूर्य _____ : मिथुन
चन्द्र _____ : कुम्भ
मंगल _____ : कर्क
बुध _____ : कुम्भ
गुरु _____ : सिंह
शुक्र _____ : कन्या
शनि _____ : वृष
राहु _____ : तुला

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र


पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

चं	बु	शु ल सू रा	
गु	के	श मं	

लग्न कुंडली

रा	शु ल सू रा	चं	
	बु		
	मं श	गु	के

विंशोत्तरी
बुध 1वर्ष 1मा 20दि
बुध

27/05/1984

16/07/2088

बुध	16/07/1985
केतु	16/07/1992
शुक्र	16/07/2012
सूर्य	17/07/2018
चन्द्र	16/07/2028
मंगल	17/07/2035
राहु	16/07/2053
गुरु	16/07/2069
शनि	16/07/2088

योगिनी

उल्का 0वर्ष 4मा 24दि
सिद्धा

20/10/2020

21/10/2027

सिद्धा	02/03/2022
संकटा	21/09/2023
मंगला	01/12/2023
पिंगला	21/04/2024
धान्या	20/11/2024
भामरी	31/08/2025
भद्रिका	21/08/2026
उल्का	21/10/2027

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			वृष	12:30:48	381:02:41	रोहिणी	1	4	शुक्र	चंद्र	राहु	---
सूर्य			वृष	12:15:09	00:57:36	रोहिणी	1	4	शुक्र	चंद्र	राहु	शत्रु राशि
चंद्र			मीन	29:06:26	12:11:11	रेवती	4	27	गुरु	बुध	शनि	सम राशि
मंगल	व		तुला	21:49:44	00:18:03	विशाखा	1	16	शुक्र	गुरु	शनि	सम राशि
बुध			मेष	18:09:35	01:18:35	भरणी	2	2	मंगल	शुक्र	राहु	सम राशि
गुरु	व		धनु	18:11:48	00:04:50	पूर्वाषाढा	2	20	गुरु	शुक्र	राहु	स्वराशि
शुक्र		अ	वृष	06:50:37	01:13:43	कृतिका	4	3	शुक्र	सूर्य	बुध	स्वराशि
शनि	व		तुला	17:44:42	00:03:54	स्वाति	4	15	शुक्र	राहु	सूर्य	उच्च राशि
राहु			वृष	12:57:37	00:00:05	रोहिणी	1	4	शुक्र	चंद्र	राहु	मित्र राशि
केतु			वृश्चि	12:57:37	00:00:05	अनुराधा	3	17	मंगल	शनि	राहु	मित्र राशि
हर्ष	व		वृश्चि	18:10:32	00:02:28	ज्येष्ठा	1	18	मंगल	बुध	बुध	---
नेप	व		धनु	07:04:04	00:01:26	मूल	3	19	गुरु	केतु	राहु	---
प्लूटो	व		तुला	06:10:28	00:01:17	चित्रा	4	14	शुक्र	मंगल	चंद्र	---
दशम भाव			मक	25:53:36	--	धनिष्ठा	--	23	शनि	मंगल	राहु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:38:04


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मेष 24:44:36	वृष 12:30:48
2	वृष 24:44:36	मिथुन 06:58:24
3	मिथुन 19:12:12	कर्क 01:26:00
4	कर्क 13:39:48	कर्क 25:53:36
5	सिंह 13:39:48	कन्या 01:26:00
6	कन्या 19:12:12	तुला 06:58:24
7	तुला 24:44:36	वृश्चिक 12:30:48
8	वृश्चिक 24:44:36	धनु 06:58:24
9	धनु 19:12:12	मकर 01:26:00
10	मकर 13:39:48	मकर 25:53:36
11	कुम्भ 13:39:48	मीन 01:26:00
12	मीन 19:12:12	मेष 06:58:24


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	वृष	12:30:48
2	मिथुन	07:21:27
3	कर्क	00:30:46
4	कर्क	25:53:36
5	सिंह	26:51:03
6	तुला	04:15:49
7	वृश्चिक	12:30:48
8	धनु	07:21:27
9	मकर	00:30:46
10	मकर	25:53:36
11	कुम्भ	26:51:03
12	मेष	04:15:49


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य
आश्लेषा	मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा
ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद

चलित कुंडली



भाव कुंडली



भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : बुध 1 वर्ष 1 मास 20 दिन

बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष
27/05/1984	16/07/1985	16/07/1992	16/07/2012	17/07/2018
16/07/1985	16/07/1992	16/07/2012	17/07/2018	16/07/2028
00/00/0000	केतु 13/12/1985	शुक्र 16/11/1995	सूर्य 03/11/2012	चंद्र 17/05/2019
00/00/0000	शुक्र 12/02/1987	सूर्य 15/11/1996	चंद्र 04/05/2013	मंगल 16/12/2019
00/00/0000	सूर्य 20/06/1987	चंद्र 17/07/1998	मंगल 09/09/2013	राहु 16/06/2021
00/00/0000	चंद्र 19/01/1988	मंगल 16/09/1999	राहु 04/08/2014	गुरु 16/10/2022
00/00/0000	मंगल 16/06/1988	राहु 16/09/2002	गुरु 23/05/2015	शनि 16/05/2024
00/00/0000	राहु 04/07/1989	गुरु 17/05/2005	शनि 04/05/2016	बुध 16/10/2025
00/00/0000	गुरु 10/06/1990	शनि 16/07/2008	बुध 11/03/2017	केतु 17/05/2026
27/05/1984	शनि 20/07/1991	बुध 17/05/2011	केतु 16/07/2017	शुक्र 16/01/2028
शनि 16/07/1985	बुध 16/07/1992	केतु 16/07/2012	शुक्र 17/07/2018	सूर्य 16/07/2028

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
16/07/2028	17/07/2035	16/07/2053	16/07/2069	16/07/2088
17/07/2035	16/07/2053	16/07/2069	16/07/2088	28/05/2104
मंगल 12/12/2028	राहु 29/03/2038	गुरु 04/09/2055	शनि 19/07/2072	बुध 13/12/2090
राहु 31/12/2029	गुरु 22/08/2040	शनि 17/03/2058	बुध 29/03/2075	केतु 10/12/2091
गुरु 07/12/2030	शनि 29/06/2043	बुध 22/06/2060	केतु 07/05/2076	शुक्र 10/10/2094
शनि 16/01/2032	बुध 15/01/2046	केतु 29/05/2061	शुक्र 08/07/2079	सूर्य 16/08/2095
बुध 12/01/2033	केतु 03/02/2047	शुक्र 28/01/2064	सूर्य 19/06/2080	चंद्र 15/01/2097
केतु 10/06/2033	शुक्र 02/02/2050	सूर्य 15/11/2064	चंद्र 18/01/2082	मंगल 12/01/2098
शुक्र 10/08/2034	सूर्य 28/12/2050	चंद्र 17/03/2066	मंगल 27/02/2083	राहु 01/08/2100
सूर्य 16/12/2034	चंद्र 28/06/2052	मंगल 21/02/2067	राहु 03/01/2086	गुरु 07/11/2102
चंद्र 17/07/2035	मंगल 16/07/2053	राहु 16/07/2069	गुरु 16/07/2088	शनि 28/05/2104

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल बुध 1 वर्ष 1 मा 17 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

चंद्र - केतु 16/10/2025 17/05/2026	चंद्र - शुक्र 17/05/2026 16/01/2028	चंद्र - सूर्य 16/01/2028 16/07/2028	मंगल - मंगल 16/07/2028 12/12/2028	मंगल - राहु 12/12/2028 31/12/2029
केतु 28/10/2025 शुक्र 03/12/2025 सूर्य 13/12/2025 चंद्र 31/12/2025 मंगल 13/01/2026 राहु 14/02/2026 गुरु 14/03/2026 शनि 17/04/2026 बुध 17/05/2026	शुक्र 26/08/2026 सूर्य 26/09/2026 चंद्र 15/11/2026 मंगल 21/12/2026 राहु 22/03/2027 गुरु 11/06/2027 शनि 16/09/2027 बुध 11/12/2027 केतु 16/01/2028	सूर्य 25/01/2028 चंद्र 09/02/2028 मंगल 20/02/2028 राहु 18/03/2028 गुरु 11/04/2028 शनि 10/05/2028 बुध 05/06/2028 केतु 16/06/2028 शुक्र 16/07/2028	मंगल 25/07/2028 राहु 16/08/2028 गुरु 05/09/2028 शनि 29/09/2028 बुध 20/10/2028 केतु 29/10/2028 शुक्र 22/11/2028 सूर्य 30/11/2028 चंद्र 12/12/2028	राहु 08/02/2029 गुरु 31/03/2029 शनि 31/05/2029 बुध 24/07/2029 केतु 15/08/2029 शुक्र 18/10/2029 सूर्य 07/11/2029 चंद्र 09/12/2029 मंगल 31/12/2029
मंगल - गुरु 31/12/2029 07/12/2030	मंगल - शनि 07/12/2030 16/01/2032	मंगल - बुध 16/01/2032 12/01/2033	मंगल - केतु 12/01/2033 10/06/2033	मंगल - शुक्र 10/06/2033 10/08/2034
गुरु 14/02/2030 शनि 09/04/2030 बुध 28/05/2030 केतु 17/06/2030 शुक्र 12/08/2030 सूर्य 29/08/2030 चंद्र 27/09/2030 मंगल 17/10/2030 राहु 07/12/2030	शनि 09/02/2031 बुध 07/04/2031 केतु 01/05/2031 शुक्र 07/07/2031 सूर्य 28/07/2031 चंद्र 30/08/2031 मंगल 23/09/2031 राहु 23/11/2031 गुरु 16/01/2032	बुध 07/03/2032 केतु 28/03/2032 शुक्र 27/05/2032 सूर्य 15/06/2032 चंद्र 15/07/2032 मंगल 05/08/2032 राहु 28/09/2032 गुरु 15/11/2032 शनि 12/01/2033	केतु 21/01/2033 शुक्र 14/02/2033 सूर्य 22/02/2033 चंद्र 06/03/2033 मंगल 15/03/2033 राहु 06/04/2033 गुरु 26/04/2033 शनि 20/05/2033 बुध 10/06/2033	शुक्र 20/08/2033 सूर्य 10/09/2033 चंद्र 16/10/2033 मंगल 10/11/2033 राहु 13/01/2034 गुरु 10/03/2034 शनि 17/05/2034 बुध 16/07/2034 केतु 10/08/2034
मंगल - सूर्य 10/08/2034 16/12/2034	मंगल - चंद्र 16/12/2034 17/07/2035	राहु - राहु 17/07/2035 29/03/2038	राहु - गुरु 29/03/2038 22/08/2040	राहु - शनि 22/08/2040 29/06/2043
सूर्य 16/08/2034 चंद्र 27/08/2034 मंगल 04/09/2034 राहु 23/09/2034 गुरु 10/10/2034 शनि 30/10/2034 बुध 17/11/2034 केतु 25/11/2034 शुक्र 16/12/2034	चंद्र 03/01/2035 मंगल 15/01/2035 राहु 16/02/2035 गुरु 16/03/2035 शनि 19/04/2035 बुध 19/05/2035 केतु 01/06/2035 शुक्र 06/07/2035 सूर्य 17/07/2035	राहु 12/12/2035 गुरु 21/04/2036 शनि 25/09/2036 बुध 11/02/2037 केतु 10/04/2037 शुक्र 21/09/2037 सूर्य 09/11/2037 चंद्र 31/01/2038 मंगल 29/03/2038	गुरु 24/07/2038 शनि 10/12/2038 बुध 13/04/2039 केतु 03/06/2039 शुक्र 27/10/2039 सूर्य 10/12/2039 चंद्र 21/02/2040 मंगल 12/04/2040 राहु 22/08/2040	शनि 03/02/2041 बुध 30/06/2041 केतु 30/08/2041 शुक्र 19/02/2042 सूर्य 12/04/2042 चंद्र 08/07/2042 मंगल 07/09/2042 राहु 10/02/2043 गुरु 29/06/2043

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद्र शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	9
भाग्यांक	9
मित्र अंक	1, 3, 6, 9
शत्रु अंक	4, 5, 8
शुभ वर्ष	27,36,45,54,63
शुभ दिन	शनि, बुध, शुक्र
शुभ ग्रह	शनि, बुध, शुक्र
मित्र राशि	वृश्चिक, धनु
मित्र लग्न	सिंह, मकर, मीन
अनुकूल देवता	जगदम्बा
शुभ रत्न	हीरा
शुभ उपरत्न	जरकिन, ओपल
भाग्य रत्न	नीलम
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	रजत
शुभ दिशा	दक्षिणपूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मिसरी, दधि, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दूध

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र


पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
हीरा	शुक्र	89%	स्वास्थ्य, शत्रु व रोग मुक्ति
गोमेद	राहु	83%	स्वास्थ्य
माणिक्य	सूर्य	73%	स्वास्थ्य, सुख
नीलम	शनि	73%	शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति
पन्ना	बुध	69%	कम खर्च, धन, सन्तति सुख
मोती	चंद्र	53%	धनार्जन, पराक्रम
लहसुनिया	केतु	34%	दाम्पत्य कष्ट, शत्रु व रोग
मूंगा	मंगल	0%	शत्रु व रोग, व्यय, दाम्पत्य कष्ट
पुखराज	गुरु	0%	दुर्घटना, हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
बुध	16/07/1985	80%	31%	0%	81%	0%	95%	73%	83%	34%
केतु	16/07/1992	61%	31%	0%	69%	0%	95%	61%	70%	55%
शुक्र	16/07/2012	61%	31%	0%	75%	0%	100%	80%	89%	47%
सूर्य	17/07/2018	86%	59%	0%	69%	0%	76%	61%	70%	9%
चंद्र	16/07/2028	80%	66%	0%	75%	0%	89%	73%	70%	9%
मंगल	17/07/2035	80%	59%	0%	56%	0%	89%	73%	70%	47%
राहु	16/07/2053	61%	31%	0%	69%	0%	95%	80%	95%	9%
गुरु	16/07/2069	80%	59%	0%	56%	0%	76%	73%	83%	34%
शनि	16/07/2088	61%	31%	0%	75%	0%	95%	86%	89%	9%

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद्र शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	27/05/1984-21/12/1984 01/06/1985-17/09/1985	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	05/03/1993-15/10/1993 10/11/1993-02/06/1995 10/08/1995-16/02/1996	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	17/04/1998-07/06/2000	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	23/07/2002-08/01/2003 07/04/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005	-----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027 23/02/2028-08/08/2029 05/10/2029-17/04/2030	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	क्षेत्र
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	शत्रु व रोग मुक्ति
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	शुभ	व्यावसायिक उन्नति
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	अशुभ	धनार्जन
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	व्यय
		धन

फल

शुभ
शुभ
शुभ
अशुभ
सम

क्षेत्र

शत्रु व रोग मुक्ति
व्यावसायिक उन्नति
धनार्जन
व्यय
धन

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी चन्द्रकुंडली में जन्म के समय मंगल की स्थिति अष्टम भाव में है अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं परन्तु शास्त्रानुसार आपकी कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो रहा है। अतः इस मंगल के प्रभाव से आप को अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु विवाह के पश्चात पति के स्वास्थ्य पर इसका अल्प मात्रा में प्रभाव हो सकता है लेकिन इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। इसके शुभ प्रभाव से आप निर्विघ्न रूप से अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगी तथा जीवन में भाई बहनों का सुख तथा सहयोग भी अर्जित कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त धनेश्वर्य एवं सुखोपभोग की सामग्री से सुसम्पन्न रहकर सुख एवं आनंद पूर्वक अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगी।

यद्यपि यह मंगल आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा परन्तु इसके प्रभाव से आपकी शादी थोड़ी विलम्ब से सम्पन्न होगी परन्तु वैवाहिक कार्य अत्यंत ही सुगमता पूर्वक सम्पन्न होगा तथा इसमें किसी भी प्रकार से अनावश्यक समस्याओं एवं व्यवधानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं एक दूसरे को हमेशा सहयोग प्रदान करेंगे। यदा कदा पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा परन्तु उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा तथा दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा।

आपकी चन्द्रकुंडली में मंगल अष्टम भाव में स्थित है अतः आपके शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न समाप्त होते रहेंगे। मांगल्य स्थान होने से यदा कदा पति का स्वास्थ्य प्रभावित होगा लेकिन दाम्पत्य सुख में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि से आपके आय स्रोत प्रशस्त रहेंगे जिससे आपको लाभ एवं धनार्जन होता रहेगा। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ रहेंगी। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप एक शिक्षित महिला होंगी। पारिवारिक सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगी। साथ ही परिवार में हमेशा

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

शान्ति रहेगी। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप एक पराकमी महिला होंगी तथा भाई बहनों से पूर्ण सुख तथा सहयोग अर्जित करेंगी। इस प्रकार आप जीवन में सुख तथा प्रसन्नता प्राप्त करेंगी।

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपको किसी गैर मांगलिक या ऐसे मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिसका उचित रूप से मांगलिक दोष भंग हो रहा हो। इस प्रकार उचित मिलान करके यदि आप अपना दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करेंगी तो जीवन में पूर्ण सौभाग्य धनऐश्वर्य एवं मान सम्मान अर्जित करके समाज में प्रतिष्ठा तथा यश प्राप्त करने में सफल रहेंगी।

इसके अतिरिक्त जन्मपत्री मिलान के समय यदि किसी युवक की कुंडली में अष्टम भाव में ही मंगल हो तो ऐसे विवाह की यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि समान भावों में मंगल स्थित होने से आपके सांसारिक शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य विलम्ब से सम्पन्न होंगे एवं इससे समय समय पर आप दोनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता रहेगा। जिससे सांसारिक सुखोपभोग में आप कष्टानुभूति प्राप्त करेंगी। इसके अलावा अन्य भावों में यदि मंगल स्थित हो तो उसके शुभ प्रभाव होंगे तथा आप सभी सुखों से युक्त होकर अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगी। अतः सोच विचार कर एवं सावधानी पूर्वक अन्तिम निर्णय लेना चाहिए।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा

9312257830

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद्र शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।
- त्रिक भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और उस पर राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में बुध के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद्र शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा

9312257830

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा

9312257830

ग्रह फल

सूर्य

लग्न (प्रथम) में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही, प्रवासी उन्नत नासिका, विशाल ललाटवाला, पित्त-वातरोगी, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी होता है।

वृष राशि में रवि हो तो जातक शान्त, व्यवहार कुशल, पाप भीरु, स्वाभिमानी मुखरोगी एवं स्त्रीद्वेषी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति प्रथम भाव में स्थित है। अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं उनकी आयु भी दीर्घ होगी। आपके प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भाव रहेगा तथा जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आप जीवन में पिता के द्वारा यश अर्जित करने में भी सफल रहेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के द्वारा आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।

आप भी उनके प्रति हार्दिक सम्मान तथा आदर प्रदान करेंगी तथा उनकी सेवा एवं आज्ञा पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे तथापि यदा कदा अल्प मात्रा में सैद्धान्तिक मतभेद विद्यमान रहेंगे जिससे यदा कदा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आप जीवन में उन्हें अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी।

चन्द्र

ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक गुणी, चंचलबुद्धि, सन्तति और सम्पत्ति से युक्त, सुखी, यशस्वी, लोकप्रिय, दीर्घायु, मन्त्रज्ञ, परदेशप्रिय एवं राज्यकार्यदक्ष होता है।

मीन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक शिल्पकार, सुदेही, शास्त्रज्ञ, धार्मिक, अतिकामी और प्रसन्न मुख वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा एकादश भाव में स्थित है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके प्रति उनके मन में विशेष वात्सल्य का भाव भी विद्यमान रहेगा। जीवन में वे प्रत्येक क्षेत्र में आपका यत्नपूर्वक पूर्ण सहयोग करती रहेंगी। आपके आर्थिक साधनों की अभिवृद्धि में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही मातृपक्ष से भी आप पूर्ण आर्थिक लाभ एवं अन्य प्रकार से सुखार्जन करेंगी।

आप की भी माता के प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रहेंगी एवं उनकी आज्ञा पालन के लिए भी आप प्रायः तत्पर रहेंगी। जीवन में आप हर प्रकार से उनकी सहायता एवं सहयोग भी करेंगी तथा अवसरानुकूल उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे तथा आपसी मतभेद अत्यन्त ही अल्प मात्रा में रहेंगे।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

मंगल

छठेभाव में मंगल हो तो जातक बलवान्, धैर्यशाली, प्रबल जठराग्नि, कुलवन्त, प्रचण्ड शक्ति, शत्रुहन्ता, ऋणी, दादरोगी, कोधी, पुलिस अफसर, व्रण और रक्तविकार युक्त एवं अधिकव्यय करने वाला होता है।

तुला राशि में मंगल हो तो जातक प्रवासी, वक्ता, कामी, परधनहारी, उच्चाकांक्षी, लड़ाकू, कृपालु एवं परस्त्रियों की ओर झुकाव होता है।

आपके जन्म समय में मंगल छठे भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों की आप प्रिय रहेंगी एवं उनसे सम्मान एवं स्नेह की नित्य आपको प्राप्ति होती रहेगी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति होती रहेगी। धन सम्पत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में आपको अपनी ओर से आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। सुख दुःख में वे पूर्ण रूपेण आपके साथ रहेंगे एवं शत्रु वर्ग से आपकी यत्नपूर्वक सुरक्षा करेंगे।

आपका भी उनके प्रति हार्दिक प्रेम रहेगा एवं उनके कल्याण संबंधी कार्यों को करने में तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे लेकिन यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण अल्प मात्रा में कटुता का भी आभास होगा लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनको पूर्ण आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करके अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कष्टानुभूति नहीं होने देंगी।

बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

मेष राशि में बुध हो तो जातक चतुर, प्रेमी, सत्यप्रिय, नट, रतिप्रिय कृशदेही, लेखक, ऋणी, मिलनसार, अविश्वस्त एवं बुरे विचार वाला होता है।

गुरु

अष्टमभाव में गुरु हो तो जातक दीर्घायु, नम्रव्यवहार, लेखक, सुखी, शान्त, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रन्थकार, कुलदीपक, ज्योतिषप्रेमी, मित्रों द्वारा धननाशक, गुप्तरोगी एवं लोभी होता है।

धनु राशि में गुरु हो तो जातक धनी, प्रभावशाली, विद्वान्, विश्वस्त, सज्जन, दानशील संगठनकर्ता, अच्छा वक्ता, धर्माचार्य, दम्भी, रतिप्रेमी एवं धूर्त होता है।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

शुक्र

लग्न (प्रथम) में शुक्र हो तो जातक सुन्दरदेही, दीर्घायु, राजप्रिय, कामी, उच्चसरकारी पद पर आसीन, विलासी, भोगी, विद्वान्, प्रवासी, मधुरभाषी, प्रसिद्ध सुखी एवं ऐश्वर्यवान् होता है।

वृष राशि में शुक्र हो तो जातक सुन्दर, ऐश्वर्यवान्, दानी, सदाचारी, सात्त्विक, परोपकारी, अनेक शास्त्रज्ञ, दृढ़, स्वतन्त्रकामुक, शौकीन तबीयत, संगीत-नृत्य तथा अन्य कलाओं में रुचि एवं आलसी होता है।

शनि

षष्ठभाव में शनि हो तो जातक बलवान्, आचारहीन, व्रणी, जातिविरोधी, श्वासरोगी, कण्ठरोगी, योगी, शत्रुहन्ता भोगी एवं कवि होता है।

तुला राशि में शनि हो तो जातक राजनीति में रुचि रखने वाला, प्रसिद्धनेता, धनी, सम्मानित शक्तिशाली, दानशील, परस्त्रियों में रुचि, सुभाषी, यशस्वी, स्वाभिमानी एवं उन्नतिशील होता है।

राहु

लग्न (प्रथम) में राहु हो तो जातक कामी, दुर्बल, मनस्वी, अल्पसन्तति युक्त, राजद्वेषी, नीचकर्मरत दुष्ट, स्तकरोगी, स्वार्थी एवं बात-बात पर सन्देह करने वाला होता है।

वृष राशि में राहु हो तो जातक सुखी, चंचल, कुरूप, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं धनी होता है।

केतु

सप्तम भाव में केतु हो तो जातक मतिमन्द, मूर्ख, दुखद विवाहित जीवन, पति-पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद, शत्रुभीरु एवं सुखहीन होता है।

वृश्चिक राशि में केतु हो तो जातक धूर्त, वाचाल, कुष्ठरोगी, क्रोधी निर्धन एवं व्यसनी होता है।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

दशा विश्लेषण

महादशा :- चन्द्र
(17/07/2018 - 16/07/2028)

चन्द्र की महादशा की अवधि दस वर्ष है। आपकी कुण्डली में यह 17/07/2018 को आरंभ और 16/07/2028 को समाप्त होगी।

चन्द्र एकादश भाव में स्थित है और इसे प्रबल कर रहा है। अतः इस दशा काल में आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय, शान्तिपूर्ण तथा समृद्धिशाली रहेगा। चन्द्र के कारण आपकी चहुमुखी प्रगति होगी क्योंकि एकादश भाव समाज, प्रियपात्र, आकांक्षाओं, मनोकामनाओं ओर उनकी पूर्ति, कार्यों में सफलता, आय, समृद्धि और भाग्योदय का प्रतीक है।

स्वास्थ्य :

दशा स्वामि चन्द्र के कारण इस अवधि में आपका जीवन सुखमय, और उत्तम रहेगा। इस दशा में किसी बड़े रोग या दुर्घटना की संभावना नहीं है और आपका जीवन सुखमय व स्वस्थ होगा और आप अपने कार्यों का सम्पादन सामान्य ढंग से अच्छी तरह करेंगे।

अर्थ और सम्पत्ति :

चन्द्र दशा की अवधि में आप लाभ अर्जित करेंगे जिससे आपका सम्पत्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सम्पत्तियों और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।

व्यवसाय :

व्यावसायिक दृष्टि से भी यह दशा आपके लिए उत्तम रहेगी। आपको अनेक लाभ के संकेत हैं जो इस बात के सूचक हैं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। यदि आप सेवारत हैं तो पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके व्यवसाय का विस्तार होगा जिससे अपने क्षेत्र व सामाजिक जीवन में और मित्रों के बीच लोकप्रिय होंगे।

पारिवारिक जीवन :

दशा आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी उत्तम है। आपके जीवन साथी आपके सहायक होंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और आपको पत्नी, घर, बच्चों तथा सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा और भाइयों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से परिवार को लाभ होगा।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

यदि आप शैक्षिक-वृत्ति में नहीं हैं तो आपका धर्मग्रन्थों व पुराणों के अध्ययन की ओर झुकाव होगा।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद्र शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

अंतर्दशा :- चन्द्र - केतु
(16/10/2025 - 17/05/2026)

चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इसके अंतर्गत केतु अंतर्दशा 7 मास की रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 17/07/2018 को प्रारंभ हुई ओर 16/07/2028 को समाप्त होगी। केतु अंतर्दशा 16/10/2025 को प्रारंभ होकर 17/05/2026 को समाप्त होगी।

केतु आपकी जन्मपत्रिका के सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव लौकिक संबंध, जीवनसाथी, व्यापार में साझेदार, मुकदमे, विदेश में प्रभाव और जीवन को खतरों का परिचायक है। सप्तम भाव में स्थित होकर केतु आपकी कुंडली में लग्न को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में दांपत्य संबंधों में कुछ कष्ट हो सकता है। आपकी वासना में वृद्धि के कारण जीवनसाथी रुष्ट हो सकते हैं। चरित्र में गिरावट न आने दें। अपमान और वीर्यशक्ति में हास के संकेत है। अरिष्ट से बचाव के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र के 72,000 जाप करें।

अंतर्दशा :- चन्द्र - शुक्र
(17/05/2026 - 16/01/2028)

चंद्र की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपके लिए यह 17/07/2018 को प्रारंभ होकर 16/07/2028को समाप्त होगी।

इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 17/05/2026 को प्रारंभ होकर 16/01/2028 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में स्थित है। प्रथम भाव शारीरिक बनावट, आकृति, स्वास्थ्य, जन्मजात स्वभाव और आदतें, सम्मान, गरिमा, सामान्य शुभत्व, चेहरे का ऊपरी भाग, आयु और जीवन की रूपरेखा आदि का परिचायक है। लग्न में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सक्रियता बढ़ेगी, जीवन हंसी-खुशी से गुजरेगा। अत्यधिक वासना और विवाहेतर संबंधों से बचें।

अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें।

1. चींटियों को शक्कर और आटा दें।
2. कन्याओं को खीर खिलाएं।
3. भोजन से पहली चपाती निकालकर गाय को दें।
4. लक्ष्मीजी की उपासना करें।

अंतर्दशा :- चन्द्र - सूर्य
(16/01/2028 - 16/07/2028)

चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष होगी। आपके लिए यह 17/07/2018 को प्रारंभ होगी और 16/07/2028 को समाप्त होगी।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद्र शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

**महादशा :- मंगल
(16/07/2028 - 17/07/2035)**

मंगल की महादशा 16/07/2028 को आरम्भ होगी और 7 वर्ष की होकर 17/07/2035 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल षष्ठम भाव में स्थित है। मंगल की दृष्टि बारहवे भाव, लग्न तथा नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी 10 वर्ष की चन्द्रदशा चल रही थी। आपको समृद्धि की प्राप्ति हुई होगी, आपकी यात्रा हुई होगी और धन तथा धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव रहा होगा। इस दशा के दौरान विरोधियों पर आपको विजय तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और विदेशी स्रोतों से संभावित लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य :

इस दशा में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। कभी-कभी कुछ मौसमी कारणों से आप ज्वर, संक्रामक बीमारी, उच्च रक्तचाप या पेट से सम्बन्धित बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। सुरक्षात्मक उपायों से इन रोगों से मुक्ति हो सकती है; अन्यथा आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अर्थ और व्यवसाय :

आपका बैंक बैलेंस सृष्ट होगा। आपको विरोधियों या शत्रुओं से लाभ मिलेगा। केस-मुकदमें में विजय होगी और निर्णय आपके पक्ष में होगा। इस दशा में कार्य-क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल होगी। जीविका के लिए इन्जीनियरिंग, प्रशासनिक सेवा, सैन्य सेवा, चिकित्सा क्षेत्र, रसायनज्ञ के कार्य अथवा सेवा कार्य का चयन कर सकते हैं।

परिवार :

परिवार में आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे। आपकी सन्तान से आपको लाभ होगा।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवनसाथी के साथ संबंध सन्तोषजनक रहेंगे। आपकी माता को उनके सम्बन्धियों व छोटी यात्राओं से लाभ होगा। आपके पिता को यश, ख्याति, शक्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी। उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई-बहनों की जमीन-जायदाद में वृद्धि और जीवन-वृत्ति में उन्नति होगी जबकि बड़ों के लिए यह समय परिवर्तन का होगा जो अंततः लाभदायक होगा। मित्रों के चयन के प्रति सावधान रहें।

अन्तर्दशा :

मंगल की मुख्य दशा में आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आगे आनेवाली राहु दशा में कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा में लाभ तथा संतान से सुख मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा में छोटी यात्राएँ और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप परिवर्तन व लाभ की प्राप्ति होगी जबकि केतु की अन्तर्दशा में कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप साझेदारी में लाभ, विवाद और यात्राएँ होंगी जबकि उसके बाद सूर्य की अन्तर्दशा के कारण जीवन में उन्नति होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा में समृद्धि की प्राप्ति, यात्रा ओर आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव होगा।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा

मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

**अंतर्दशा :- मंगल - मंगल
(16/07/2028 - 12/12/2028)**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/07/2028 को प्रारंभ हुई है। इस महादशा के अंतर्गत प्रथम अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 16/07/2028 को प्रारंभ होकर 12/12/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल वीरता, साहस, अचल संपत्ति और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आप शत्रुओं और विरोधियों पर विजयी होंगे। मातहत आज्ञाकारी रहेंगे, मगर निगरानी आवश्यक है। किरायेदार सहयोग करेंगे; किराये से अच्छी आमदनी हो सकती है। रोगनिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। आप स्वतंत्र, प्रतिस्पर्धा में कुशल और रौबदाब वाले होंगे। छोटी-मोटी चोटों से बचाव करें। यात्राएं होंगी, अध्यात्म में रुचि हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे।

आपके जीवनसाथी के खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी। आपके पिता को कार्यों में सफलता मिलेगी। माता को पड़ोसियों से लाभ होगा; छोटी यात्राएं हो सकती हैं। भाई-बहन जायदाद क्रय कर सकते हैं। बड़े भाई-बहनों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है या अचानक धन मिल सकता है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम रहेगी। अगर वे सेवारत हैं तो धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो समय सौभाग्यशाली रहेगा। व्यापारी सफल रहेंगे। परामर्शदाताओं का समय भी शुभ रहेगा।

पित्तरोगों, मामूली चोट, खून की खराबी आदि से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए लाल वस्तुएं, लाल चंदन और तांबे आदि का दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - राहु
(12/12/2028 - 31/12/2029)**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/07/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी। आपके लिए यह 12/12/2028 को प्रारंभ होकर 31/12/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक लाभ, परिवर्तन और लंबी यात्राओं का कारक है।

इस अवधि में आप साहसी होंगे और शीघ्रता से फैसले करेंगे। इससे शत्रु बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उन पर विजयी होंगे। जीवनसाथी से धन प्राप्त हो सकता है। विदेश से व्यापारिक संबंध हो सकते हैं; व्यापार संबंधी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। जीवनसाथी और साझेदार से मधुर संबंध बनाए रखने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

आपके जीवनसाथी को शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपके पिता के धन में वृद्धि होगी; उन्हें संतान से सुख मिलेगा। आपकी माता तीर्थयात्रा कर सकती हैं। आपके भाई-बहनों को धन का लाभ होगा; उन्हें धनार्जन के बहुत से अवसर मिलेंगे। उनके प्रभावशाली मित्र होंगे ; लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा।

आपकी संतान को भौतिक सुख उपलब्ध रहेंगे। अगर से सेवारत हैं तो उच्चपद और धन प्राप्त करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो शुत्रुओं से सावधान रहें, वे आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। परामर्शदाता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं। व्यापारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

ॐ रां राहवे नमः

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु
(31/12/2029 - 07/12/2030)**

आपकी मंगल की महादशा 16/07/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 31/12/2029 को प्रारंभ होकर 07/12/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आप कुछ धन बिना परिश्रम के भी प्राप्त कर सकते हैं। अचानक धन आ सकता है। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। अध्यात्म या पराविद्या में रुचि हो सकती है। उत्तम भोजन और वस्त्र उपलब्ध रहेंगे, परिवार में वातावरण मधुर रहेगा। अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं। माता से लाभ होगा। समाजसेवा में भाग लेंगे। शुभ कार्यों पर धन खर्च होगा।

आपके जीवनसाथी खूब धन प्राप्त करेंगे। आपके पिता धर्म और अध्यात्म में रुचि लेंगे। माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, वे शत्रुओं पर विजयी होंगी। आपके भाई-बहनों के कार्यालय उत्तम होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी।

आपकी संतान को कार्यों में सफलता मिलेगी; शिक्षा के लिए उत्तम समय है।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, लघु यात्राएं हो सकती हैं। परामर्शदाता और व्यापारी धन कमाएंगे।

स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा, मगर उदर रोगों से बचाव आवश्यक है। मामूली व्याधियों को अनदेखा न करें। अरिष्ट से बचाव के लिए ब्रह्माजी की उपासना करें।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि
(07/12/2030 - 16/01/2032)**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/07/2028 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 07/12/2030 को प्रारंभ होकर 16/01/2032 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आप शत्रुओं और स्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। जिम्मेदारियों को धैर्य और कार्यकुशलता से निभाएंगे। सफलता अधिकारियों से संघर्ष के उपरांत मिलेगी। खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्रा हो सकती है। समाजसेवा और दान आदि में रुचि रहेगी। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह बना रहेगा। अध्ययन और परिश्रम के लिए समय उत्तम है।

आपके जीवनसाथी के खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके पिता के सम्मान में वृद्धि होगी। माता को रिश्तेदारों से सुख-सुविधाएं प्राप्त होंगी, लघु यात्राएं होंगी। भाई-बहनों को जायदाद की खरीद-फरोख्त से लाभ होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, धनी बनेंगे, परिवर्तन हो सकते हैं, अचानक अप्रत्याशित घटना घट सकती है।

आपकी संतान धनी बनेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यक्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। उच्चाधिकारी प्रशंसा करेंगे। परामर्शदाता धनी बनेंगे। व्यापारी कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शरीर में छोटी-मोटी बीमारियों से प्रतिरोध की शक्ति रहेगी। अरिष्ट से बचाव के लिए शिवजी की आराधना भैरवजी के रूप में करें।

भक्ति शक्ति ज्योतिष केंद्र

पं गोकुल चंद शर्मा
मकान नं-389, सेक्टर 17A, गुरुग्राम, हरियाणा
9312257830